

Perfect solution to all problems

Tips, Tricks, General Knowledge, Current Affairs, Latest Sample,
Previous Year, Practice Papers with solutions.

CBSE 10th Hindi 2015 Unsolved Paper Delhi Board

Buy solution: <http://www.4ono.com/cbse-10th-hindi-solved-previous-year-papers/>

Note

This pdf file is downloaded from www.4ono.com. Editing the content or publicizing this on any blog or website without the written permission of [Rewire Media](http://www.4ono.com) is punishable, the suffering will be decided under DMCA

CBSE 10th Hindi 2015 Unsolved Paper

Delhi Board

TIME - 3HR. | QUESTIONS - 16

THE MARKS ARE MENTIONED ON EACH QUESTION

- (i) इस प्रश्न पत्र के चार खंड हैं क, ख, ग और घ।
 (ii) चारों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है।
 (iii) यथासंभव प्रत्येक खंड के उत्तर क्रमशः दीजिए।

SECTION – A

प्रश्न-1. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए- 5 marks

भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश को खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर बनाना था, लेकिन इस बात की आशंका किसी को नहीं थी कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल न सिर्फ खेतों में, बल्कि खेतों से बाहर मंडियों तक में होने लगेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग खाद्यान्न की गुणवत्ता के लिए सही नहीं है। लेकिन जिस रफ़्तार से देश की आबादी बढ़ रही है, उसके मद्देनज़र फसलों की अधिक पैदावार ज़रूरी थी। समस्या सिर्फ रासायनिक खादों के प्रयोग की ही नहीं है। देश के ज्यादातर किसान परंपरागत कृषि से दूर होते जा रहे हैं। दो दशक पहले तक हर किसान के यहाँ गाय, बैल और भैंस खूंटों से बँधे मिलते थे। अब इन मवेशियों की जगह ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ले ली है। परिणाम स्वरूप गोबर और घूरे की राख से बनी कंपोस्ट खाद खेतों में गिरनी बंद हो गई। पहले चैत-बैसाख में गेहूँ की फसल कटने के बाद किसान अपने खेतों में गोबर, राख और पत्तों से बनी जैविक खाद डालते थे। इससे न सिर्फ खेतों की उर्वरा-शक्ति बरकरार रहती थी, बल्कि इससे किसानों को आर्थिक लाभ के अलावा बेहतर गुणवत्ता वाली फसल मिलती थी।

(क) हरित क्रांति अपने साथ क्या नहीं लाई-

- खाद्यान्न के लिए आत्मनिर्भरता
- रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक
- परंपरागत खेती से किसानों की दूरी
- बेहतर गुणवत्ता वाली फसल

(ख) गोबर खाद की विशेषता है-

- जैविक है और उर्वरा-शक्ति को बनाए रखती है।
- गाँव में गोबर आसानी से मिलता है।
- मंडी तक ले जाई जा सकती है।
- किसान की सर्वाधिक पसंद है।

(ग) रासायनिक खाद की विशेषता नहीं है-

- पैदावार बढ़ाना
- खाद्यान्न की गुणवत्ता बढ़ाना
- सस्ता होना
- सहज उपलब्ध होना

(घ) रासायनिक खाद के अतिरिक्त किस प्रमुख समस्या का उल्लेख है?

- किसानों का परंपरागत कृषि से दूर होना
- फसल की बिक्री के लिए मंडी उपलब्ध न होना
- ट्रैक्टर का बढ़ता उपयोग
- खेतों की उर्वरा-शक्ति नष्ट होना

(ड) गद्यांश के लिए उचित शीर्षक होगा-

- (i) धवल धरोहर
- (ii) भारत
- (iii) सौंदर्य का प्रतीक ताजमहल
- (iv) हमारी पहचान

प्रश्न-3. निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए- 5 marks

कोलाहल हो,
या सत्राटा, कविता सदा सृजन करती है,
जब भी आँसू
हुआ पराजित, कविता सदा जंग लड़ती है।
जब भी कर्ता हुआ अकर्ता,
कविता ने जीना सिखलाया
यात्राएँ जब मौन हो गईं
कविता ने चलना सिखलाया।
जब भी तम का
जुलम चढ़ा है, कविता नया सूर्य गढ़ती है,
जब गीतों की फसलें लुटतीं
शीलहरण होता कलियों का,
शब्दहीन जब हुई चेतना
तब-तब चैन लुटा गलियों का।
जब कुर्सी का
कंस गरजता, कविता स्वयं कृष्ण बनती है।
अपने भी हो गए पराए, यूँ झूठे अनुबंध हो गए
घर में ही वनवास हो रहा
यूँ गूँगे संबंध हो गए।

(क) कविता को सृजनात्मक कहा गया है क्योंकि कविता

- (i) हर परिस्थिति में सर्जक की भूमिका निभाती है।
- (ii) गुणों की सराहना करती है
- (iii) मौन यात्रा कराती है
- (iv) कवि का विश्वास टढ़ करती है

(ख) 'कविता सदा जंग लड़ती है' का भाव है-

- (i) कविता में हारे हुए को सांत्वना देने की क्षमता है
- (ii) कविता संघर्ष की प्रेरणा देती है
- (iii) कविता चुनौती स्वीकार करने को बाध्य करती है
- (iv) कविता आनंद देती है।

(ग) कविता जीना कब सिखाती है?

- (i) जब कर्मठ अकर्मण्य हो जाता है
- (ii) जब लोग मौन साध लेते हैं
- (iii) जब लोग हार जाते हैं
- (iv) जब लोग संन्यास लेने की सोचने लगते हैं

(क) कवि ने भारतीय जनता की सहनशीलता का वर्णन किस रूप में किया है?

- भारतीय जनता सभी अत्याचार सहती है।
- वह हाथ जोड़े हर आज्ञा मानती है।
- वह मिट्टी की मूरत बनी आवाज नहीं उठाती।
- नासमझी के कारण सहनशील बनी रहती है।

(ख) 'अथवा कोई दुधमुँही जिसे बहलाने के जंतर-मंतर सीमित हों चार खिलौनों में कथन का क्या भाव है?

- जनता को लालच देकर फुसलाया जा सकता है।
- भारतीयों को किसी लालच से फुसलाया नहीं जा सकता है।
- भारतीय जनता बच्चे के समान कमजोर नहीं है।
- भारतीय जनता बहुत सीधी है उसे बहलाना कठिन नहीं है।

(ग) जनता के क्रोध का क्या परिणाम होता है?

- भ्रांति
- शांति
- क्रांति
- अशांति

(घ) 'प्रजा का अभिषेक होने' का क्या तात्पर्य है?

- जनता के हाथ में सत्ता सौंपना
- राजाओं को अपदस्थ करना
- पर्याप्त वर्षा होना
- लोकतंत्र से दूरी रखना

(ङ) आम आदमी को 'देवता' कहा गया है क्योंकि-

- वह देवता जैसा सरल व गुणवान है।
- उसका परिश्रम वंदनीय है।
- उसने देवता जैसा काम किया है।
- उसे मुकुट पहनाया गया है।

SECTION – B

प्रश्न-5 निर्देशानुसार उत्तर दीजिए- 3 marks

- अपने आत्मकथ के बारे में मन्नू भंडारी ने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हैं। (रचना के आधार पर वाक्य-भेद लिखिए)
- स्त्री-पुरुषों ने मिलकर आजादी के लिए लंबा संघर्ष किया। (संयुक्त वाक्य में बदलकर लिखिए)
- इन लोगों की छत्र-छाया हटी और मुझे अपने वजूद का एहसास हुआ। (सरल वाक्य में बदलिए)

प्रश्न-6 निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तित कीजिए-4 marks

- अनेक श्रोताओं ने कविता की प्रशंसा की। (कर्मवाच्य में)
- परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया? (कर्तृवाच्य में)
- हम इतनी गर्मी में नहीं रह सकते। (भाववाच्य में)
- चलो, आज मिलकर कहीं घूमा जाए। (कर्तृवाच्य में)

अथवा

संस्कृति के नाम से जिस कूड़े-करकट के ढेर का बोध होता है, वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। क्षण-क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब-जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है, जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की ज़रूरत है।

मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है, वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है।

(क) लेखक ने किस संस्कृति को संस्कृति नहीं माना है और क्यों?

(ख) प्रज्ञा और मैत्री भाव किस नए तथ्य के दर्शन करवा सकता है और उसकी क्या विशेषता है?

(ग) मानव संस्कृति की विशेषता लिखिए।

प्रश्न-10. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए- 10 marks

(क) वर्तमान में स्त्रियों का पढ़ना क्यों ज़रूरी माना गया है, स्पष्ट कीजिए।

(ख) पुराने नियमों, रूढ़ियों और परंपराओं को तोड़ना कब और क्यों आवश्यक हो जाता है?

(ग) हजारी प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा का पुरजोर समर्थन करते हैं। उनके दो तर्कों का उल्लेख कीजिए।

(घ) बिस्मिल्ला खाँ काशी क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? कोई दो कारण लिखिए।

(ङ) बिस्मिल्ला खाँ के व्यक्तित्व की कौन-कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया?

आप इनमें से किन विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे? कारण सहित किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए।

प्रश्न-11. निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए- 5 marks

तुम्ह तौ कालु हाँक जनु लावा। बार बार मोहि लागि बोलावा।

सुनत लखन के बचन कठोरा। परसु सुधारि घरेउ कर घोरा।।

अब जनि देइ दोसु मोहु लोगू। कटुबादी बालकु बधजोगू।।

बाल बिलोकि बहुत मै बाँचा। अब येहु मरनिहार भा साँचा।।

(क) लक्ष्मण के किस कथन से उनकी निडरता का परिचय मिलता है?

(ख) परशुराम ने सभा से किस कार्य का दोष उन्हें देने के लिए कहा?

(ग) परशुराम क्यों क्रोधित हो गए?

अथवा

गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में

खो चुका होता है

या अपने ही सरगम को लाँघकर

चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में

तब संगतकार ही स्थायी को सँभाले रहता है

जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान

जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन

जब वह नौसिखिया था

(क) भटके स्वर को संगतकार कब सँभालता है और मुख्य गायक पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?

(ख) यहाँ नौसिखिया किसे कहा गया है और किस संदर्भ में?

(ग) संगतकार की भूमिका का महत्व कब सामने आता है?

प्रश्न-12. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए- 12 marks

- (क) 'छाया मत छूना' में कवि 'छाया' किसे कहता है और क्यों?
 (ख) कवि ने 'छाया मत छूना' कविता में कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों की है?
 (ग) 'कन्यादान' कविता में किसके दुख की बात की गई है और क्यों?
 (घ) 'कन्यादान' कविता में माँ ने बेटी को क्या-क्या सीखें दीं?
 (ङ) 'कन्या' के साथ दान के औचित्य पर अपने विचार लिखिए?

प्रश्न-13. आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है? इसे रोकने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं? जीवन मूल्यों की दृष्टि से लिखिए। 5 marks**SECTION – D****प्रश्न-14. किसी एक विषय पर दिए गए संकेत-बिंदुओं के आधार पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए- 10 marks**

- (क) प्लास्टिक की दुनिया
 प्लास्टिक की उपयोगिता
 प्लास्टिक के नुकसान
 उपसंहार
- (ख) मेरे जीवन का आदर्श
 आदर्श व्यक्ति का परिचय, विशेषताएँ
 प्रभावित होने के कारण
 जीवन पर प्रभाव और निष्कर्ष
- (ग) व्यायाम और स्वास्थ्य
 व्यायाम का महत्व
 स्वास्थ्य पर प्रभाव
 निष्कर्ष

प्रश्न-15. नीचे दिए गए समाचार को पढ़िए। इसे पढ़कर जो भी विचार आपके मन में आते हैं, उन्हें किसी समाचार-पत्र के संपादक को पत्र के रूप में लिखिए: 5 marks

चिड़ियाघर में मौत

मंगलवार को दिल्ली के चिड़ियाघर में सफेद बाघ के हाथों हुई एक युवक की मौत खुद में हृदयविदारक घटना है। जू देखने आया कोई युवक सबके देखते-देखते ऐसी दुखदायी मौत का शिकार हो जाए, यह बात कल्पना से भी परे लगती है। इस घटना ने कई ऐसे ज्वलंत सवाल ला दिए हैं जिनकी लंबे समय से अनदेखी हो रही है। चिड़ियाघरों के प्रबंधन में लापरवाही की शिकायतें पहले से आती रही हैं, हालांकि उनका ऐसा हौलनाक नतीजा पहली बार आया है।

